

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

थाना लोटन पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा 300 शीशी अवैध नेपाली देशी शराब बरामद व एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27.03.2021 को श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में थाना लोटन पुलिस व SSB टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त अमरीका पुत्र जगई ग्राम डिहुलिया थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के पास से पुरानी हीरों सायकिल पर लदी हुयी दो बोरियों मे अवैध नेपाली शराब बरामद हुआ, जिसमे प्रथम बोरी मे 180 शीशी नेपाली शराब जिसके अन्दर 90शीशी फायर व 90 शीशी नेपाली सैफी ब्रांड की शराब व द्वितीय बोरी मे 120 शीशी नेपाली फायर ब्रांड की शराब के साथ नो मेन्स लैण्ड के नजदीक पिलर संख्या 538/29 के निकट डिहुलिया के लिये जाने वाले कच्चे रास्ते पर समय करीब 10.30 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 44/2021 धारा 60/63 आबकारी.अधि. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमरीका पुत्र जगई ग्राम डिहुलिया थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी-

1- 300 शीशी नेपाली शराब (210 शीशी फायर व 90 शीशी सौफी ब्रांड)।

2- एक अदद पुरानी हीरों ब्रांड सायकिल।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1.उ.नि. श्री राम अशोक यादव प्रभारी चौकी हरी बंस पुर थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

2. का. सत्यपाल यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

3. का. सुनिल नायक थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

4. ए.एस.आई जी.डी टी.स्वांग दोरजे SSB 66वी वाहिनी हरिवंशपुर।

5.सी.टी पिन्टू उमा यादव SSB 66वी वाहिनी हरिवंशपुर

6.सी.टी. मदन लाल , SSB 66वी वाहिनी हरिवंशपुर

7.सी.टी. गंगा सिंह ग्राम SSB 66वी वाहिनी हरिवंशपुर

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री रमेश चंद्र पांडे, क्षेत्राधिकारी, इटवा के कुशल निर्देशन व श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, मिश्रौलिया के नेतृत्व में मिश्रौलिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.03.2021 को 01 अभियुक्त के पास से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ। मौके पर 05 कुन्तल लहन नष्ट किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 27-03-2021 को जनपद की सर्विलांस सेल की पुलिस टीम के अथक प्रयास से जनपद में गिरे/गुम हुये 133 अदद मोबाईल फोन (कुल कीमत लगभग 13 लाख 33 हजार रुपये) बरामद कर मोबाईल धारकों को वापस लौटाया गया, आम जनमानस द्वारा होली त्यौहार के पूर्व ही अपना-अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर, इस रंगोत्सव को और आत्मीय एवं जीवन में नवरंग भरने की पुलिस की इस कार्यप्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

वर्तमान में जनपद में विभिन्न स्थानों पर गुम हुये मोबाईल फोन की सूचना पुलिस कार्यालय को उपलब्ध करायी जा रही थी, जिसकी बरामदगी हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था। आदेश के अनुपालन में सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयास के माध्यम से 133 अदद मोबाईल फोन बरामद किये गये, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या में मोबाइल बरामदगी।

आज दिनांक:- 27-03-2021 को पुलिस लाइन्स सभाकक्ष में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा बरामद मोबाईल फोन को सम्बन्धित मोबाईल धारकों को सौंपा गया। होली त्यौहार के शुभ अवसर पर अपना खोया हुआ मोबाईल वापस पाकर मोबाईलधारक अत्यधिक प्रसन्न हो गये। जनपद पुलिस की इस सफलता पर मोबाईल धारकों द्वारा जनपदीय पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। मोबाईल धारकों द्वारा बताया गया कि उन्हें विश्वास नहीं था, कि उन्हें अपना खोया हुआ मोबाईल वापस मिल पायेगा। मोबाईल धारकों को सचेत किया गया कि अपने मोबाईल फोन की सुरक्षा जिम्मेदारी से करें। पूर्व में भी 499 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाईल धारकों को वापस सौंपा जा चुका है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 01- मुख्य आरक्षी अनुप राय सर्विलांस टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी सर्विलांस टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी विवेक कुमार मिश्रा सर्विलांस टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

उपरोक्त सराहनीय कार्य हेतु सर्विलांस टीम को उत्साहवर्धन हेतु रु 10,000/- नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

02 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “ वारंटी” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.03.2021 को श्री अनिल कुमार पांडे प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा के नेतृत्व में वारंटी अभियुक्त 1. मानिक पुत्र काशी 2. तुलसी पुत्र काशी निवासी ग्राम मुकुंद जोत थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 27-03-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 393 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 106 वाहनों का चालान कर ₹ 1,20,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही आज दिनांक 27.03.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. रमाशंकर राय द्वारा नकथर तिराहे के पास से एक व्यक्ति को 15 शीशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 055/21 धारा 60/63 Ex Act. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मंगरे चौधरी पुत्र स्व0 भुनकन चौधरी सा. परिगवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी-

15 शीशी नेपाली शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ.नि. रमाशंकर राय थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. का. राजू यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेशचन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सदर के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही आज दिनांक 27.03.2021 को श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में थाना लोटन पुलिस की अपराध टीम के सदस्य संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थी कि अजय पुत्र बुधई सा. लोटन थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया, जिसे समय करीब 16.10 पर गिरफ्तार कर थाना स्थानिय पर मु.अ.सं. 45/2021 धारा 4/25 ARMS ACT. पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त से बरामदगी- एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया।

गिरफ्तारी समय व स्थान – समय करीब 16.10 बजे बहद ग्राम लोटन।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण****

1. अजय पुत्र बुधई सा.लोटन थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1.उ.नि. श्री इशान्शू श्रीवास्तव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे. का. राजेन्द्र यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का. चन्द्रशेखर सिंह थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4 का. अरुण पाण्डेय थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5.का. मनिष गौड़ थाना को. लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/ सराहनीय कार्य दिनांक 27-03-2021जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 27-03-2021 को मुख्य आरक्षी मनोज सिंह, नियुक्ति स्थान न्यायालय सुरक्षा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा कार्य सरकार हेतु अपने मोटर साइकिल से न्यायालय सुरक्षा से थाना उसका बाजार जाते समय ग्राम महुआ थाना उसका बाजार के पास ट्रक नं. UP-42 AT-8416, चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुए सामने से मोटरसाइकिल सवार मु.आ. श्री मनोज सिंह को ठोकर मार दिया। जिससे उन्हे काफी गम्भीर चोटें आयी व मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस संबंध में ट्रक व को पुलिस अभिरक्षा में लेकर, चालक को गिरफ्तार कर, थाना उसका बाजार पर मु.अ.सं. 60/21 धारा 279/304A/427 भा.द.वि. व 184 MV ACT पंजीकृत कर विधिक व विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। इस घटना से मुख्य आरक्षी स्व0 श्री मनोज सिंह के परिवार काफी आहत हुये जिन्हे पुलिस परिवार द्वारा सांत्वना दिया गया एवं हर सम्भव लाभांश व सुविधाओं के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन शहीद स्मारक पर मुख्य आरक्षी स्व0 श्री मनोज सिंह को श्रद्धाजंलि दी गयी, दो मिनट का मौन रखा गया, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं उपस्थित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए अन्तिम विदाई दी गयी। श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी, सदर आदि मौजूद रहे।